

# **भारत का राजपत्र** **The Gazette of India**

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 19, 1965/कार्तिक 28, 1887  
 No. 166] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 19, 1965/KARTIKA 28, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF COMMERCE

### RESOLUTION

#### TARIFFS

*New Delhi, the 19th November, 1965*

**No. 5(2)-Tar./65.**—The Tariff Commission has submitted its Report on the continuance of protection to the Power and Distribution Transformers Industry on the basis of an inquiry undertaken by it under Sections, 11(e) and 13 of the Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951). Its recommendations are as follows:—

- (1) Protection to the transformer industry should be continued for a further period of three years ending 31st December 1968 at the existing duty of 10 per cent *ad valorem* on transformers upto 50,000 KVA and 220 KV on the H.T. side and parts of such transformers, not otherwise specified, falling under I.C.T. item No. 72(39). This is exclusive of the regulatory customs duty as well as the surcharge.
- (2) As the level of production of laminations and consequent production of transformers would depend entirely on the availability of electrical steel sheets, larger allocation of foreign exchange for import is imperative for the future development of the industry.

- (3) The delays in the allocation of foreign exchange to expansion projects of transformer manufacturers and the issue of import licences must be minimised.
- (4) It would be advisable to include the production of steel strips in 16 SWG also in the future production programme of the Rourkela Steel Works.
- (5) Early steps should be taken by Government for the substitution of indigenous material for imports in all spheres where opportunities exist within the country. The production of CRGO sheets during the Fourth Plan period in preference to hot rolled sheets programmed for production at Rourkela plant of Hindustan Steel Ltd. should be explored.
- (6) As the transformer manufacturers are finding it difficult to procure M.S. plates and sections from indigenous sources, high priority ought to be given to the transformer industry in the allocation of M.S. steel plates.
- (7) The Indian Electrical Manufacturers' Association has pleaded for a substantial increase in the allocation of copper to the wire manufacturers. It has also desired the Government to enter into an agreement with the producer country directly, if possible. This may be examined by Government.
- (8) Government may examine the various suggestions made by the transformer industry for improving exports.
- (9) The possibility of manufacture of seam welded radiators indigenously may be explored by the Directorate General of Technical Development.
- (10) The Development Commissioner, Small Scale Industries, should, in consultation with the Directorate General of Technical Development, evolve a suitable arrangement for meeting the reasonable raw material requirements of the small scale units.
- (11) In order to unify the requirements of various users, an organisation like the Central Water and Power Commission could initiate collaboration amongst the purchasers of transformers to reach an agreement regarding the general acceptance of Indian Standard Specifications.
- (12) There is scope for immediate reduction of delivery periods provided the planning of purchases by the Electricity Boards is well organised foreseeing their requirements of transformers in advance according to the schemes approved and awaiting implementation by them.
- (13) Dimensional standardisation of bushings above 11 KV should be completed expeditiously with the concurrence of the principal transformer users so that the bushing manufacturers will have no difficulty in adopting the I.S.I. specifications.
- (14) The adoption of ISI standards by the manufacturers of transformers and of components would remove the various shortcomings that are being found owing to the multiplicity of designs in use in the country. The State Electricity Boards should therefore adhere to the I.S.I. standards in placing their orders with the producers for their future requirements of transformers.

- (15) It is necessary for indigenous manufacturers to keep abreast of developments in other countries and to undertake research and development themselves.

2. Government have given careful consideration to recommendation (1) and having regard to the fact that in the present circumstances there is no likelihood of any unhealthy competition from imports and in view of the rate of duty on protected categories of power and distribution transformers and component parts thereof having gone up under the Finance (No. 2) Act, 1965 beyond the level of protective rate recommended by the Tariff Commission, Government consider that tariff protection to the Power and Distribution Transformers Industry need not be continued beyond 31st December, 1965.

Government, however, propose to continue the rate of duty as at present. Necessary legislation to implement Government's decisions will be undertaken in due course.

3. Government have taken note of recommendations (2) to (6) and (8) to (11) and steps will be taken to implement them as far as possible. Attention of the purchasers of transformers is also invited to recommendation (11). Government have noted recommendation (7).

4. Attention of the State Governments is drawn to recommendations (12) to (14). Attention of the principal transformer users and the bushing manufacturers is drawn to recommendation (13) and that of the manufacturers of transformers and of components to recommendation (14).

5. Attention of the manufacturers of transformers is also invited to recommendation (15).

#### ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned.

P. K. J. MENON,

*Joint Secy. to the Government of India.*

### वाणिज्य मंत्रालय

#### संकल्प

#### टैरिफ

नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर, 1965

सं० 5(2)-टैरि०/65. टैरिफ आयोग अधिनियम 1951 (1951 का 50) की धारा 11(न) और 13 के अन्तर्गत की गई जांच के आधार पर टैरिफ आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो कि बिजली और वितरण ट्रांसफार्मर उद्योग का संरक्षण जारी रखने के विषय में है। इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

- (1) ट्रांसफार्मर उद्योग का संरक्षण 31-12-1968 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिये और जारी रहना चाहिये। यह संरक्षण 50 हजार

के०बी०ए० तथा 220 के०बी०ए०, एच० टी० की तर्फ और उन ट्रान्सफार्मरों के इस्तेमालों के लिए भी जिनका अन्यथा उल्लेख नहीं है और जो आई० सी० टी० मस० संख्या 72 (39) के अन्तर्गत आते हैं, के लिए वर्तमान शुल्क अर्थात् मूल्य के 10 प्र० श० तक जारी रहना चाहिये। यह विनियामक सीमा-शुल्क तथा अधिभार को छोड़ कर होगा।

- (2) चूँकि नैमिनेशन्स के उत्पादन का स्तर और उसके कारण ट्रान्सफार्मरों का उत्पादन पूर्णतः विद्युत् इस्पात की बाढ़ों उपलब्ध होने पर निर्भर होगा इसलिए इस उद्योग के भावी विकास के लिए आयात के लिए अधिक विदेशी मुद्रा निर्धारित करना आवश्यक होगा।
- (3) ट्रान्सफार्मरों के निर्माताओं को बिस्तार प्रायोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा के आन्टोन तथा आयात साइसेंस जारी करने में जो निषम होता है वह न्यूनतम कर देना चाहिये।
- (4) राउरकेला इस्पात कारखाने के भावी उत्पादन कार्यक्रम में 16 एस० डब्ल्यू० जी० की इस्पात वस्तुओं का उत्पादन भी शामिल कर लेना उचित होगा।
- (5) ज्ञात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर सभी क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी देश के अन्दर सम्भावनाएँ हों, देशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा कृत्रिम कदम उठाये जाने चाहिए। कृत्रिम योजना अथवा हिन्दुस्तान स्टील लि० के राउरकेला संयंत्र गर्म करके बनाई जाने वाली चादरों के स्थान पर सी० आर० जी० ओ० चादरों के उत्पादन की जाँच पड़ताल करनी चाहिए।
- (6) चूँकि ट्रान्सफार्मर निर्माताओं को देशी स्रोतों से एम० एस० प्लेटें और सैक्शन प्राप्त करने में कठिनाई होती है इसलिए एम०एस० प्लेटें देने में ट्रान्सफार्मर उद्योग को ऊँची प्राथमिकता देनी चाहिए।
- (7) भारतीय विद्युत् निर्माता संघ ने कहा है कि तार निर्माताओं को आवंटित किए जाने वाले तांबे में काफी वृद्धि कर देनी चाहिए। उसने यह भी इच्छा प्रकट की है कि यदि सम्भव हो तो सरकार को सीधे उत्पादक देश के साथ करार कर लेना चाहिए। सरकार इस पर विचार कर सकती है।
- (8) निर्यात में सुधार करने के लिये ट्रान्सफार्मर उद्योग ने जो विभिन्न सुझाव दिये हैं उन पर सरकार विचार करे।
- (9) तकनीकी विकास के महा-निदेशक देश में जोड़ की अनाई कर के रेड्येटर बनाने की सम्भावनाओं पर विचार करें।
- (10) लघु उद्योगों के विकास आयुक्त को तकनीकी विकास के महा-निदेशक की सलाह से कोई ऐसी उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि छोटे कारखानों की कच्चे माल सम्बन्धी उचित आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।
- (11) विविध उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं का समन्वय करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जन तथा बिजली आयोग जैसा कोई संगठन ट्रान्सफार्मरों के खरीददारों के मध्य ऐसे सहयोग का सूत्रपात कर सकता है जिससे कि भारतीय प्रतिमानों की सामान्य स्वीकृति के लिए एक करार किया जा सके।

- (12) माल देने की अवधियों को तत्काल ही कम करने की गुंजाइश है बशर्ते कि बिजली बोर्डों द्वारा की जाने वाली खरीदों की योजना भली प्रकार बनाई जाय और ऐसा करने में उन के द्वारा स्वीकृत तथा अमल के लिए पड़ी हुई योजनाओं के अनुसार ट्रान्सफार्मरों की भारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख लिया जाय।
- (13) 11 के० बी० से अधिक की बुशिंग की मापों का मानकीकरण प्रमुख ट्रान्सफार्मर उपयोक्ताओं की सहमति से शीघ्र समाप्त किया जाये जिससे निर्माताओं को भारतीय मानकशाला के मानक अपनाने में कोई कठिनाई न हो।
- (14) भारतीय मानकशाला के मानकों के ट्रान्सफार्मर तथा उनके हिस्से पुर्जों के निर्माताओं द्वारा अपना लिये जाने पर वे विभिन्न त्रुटियाँ दूर हो जायेंगी जो देश में बहुत सी डिजायनों के चलन के कारण हो रही हैं। इसलिए राज्यों के बिजली बोर्डों को चाहिये कि ट्रान्सफार्मर सम्बन्धी अपनी भावी आवश्यकताओं के आर्डर देते समय वे भारतीय मानकशाला के प्रतिमानों पर ही जोर दें।
- (15) देशी निर्माताओं को चाहिये कि वे अन्य देशों में होने वाले विकास के बराबर रहें और स्वयं भी गवेषणा तथा विकास का कार्य करते रहें।

2. सरकार ने सिफारिश (1) पर सावधानी से विचार किया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान अवस्थाओं में आयात से कोई बुरी प्रतिस्पर्धा होने की सम्भावना नहीं है और यह भी देखते हुए कि बिजली तथा वितरण सम्बन्धी संरक्षित श्रेणी के ट्रान्सफार्मरों तथा उन के हिस्सों पुर्जों के प्रशुल्क की दर वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत टैरिफ आयोग द्वारा सिफारिश-शुदा संरक्षित दर के स्तर से भी ऊंची हो गई है, सरकार का विचार है कि बिजली तथा वितरण ट्रान्सफार्मर उद्योग का टैरिफ संरक्षण 31 दिसम्बर 1965 के आगे जारी नहीं रहना चाहिये।

फिर भी सरकार प्रशुल्क की दर वर्तमान के समान ही बनाये रखना चाहती है। सरकार के निश्चयों को अमल में लाने के लिये आवश्यक कानून यथासमय बनाया जायगा।

3. सरकार ने सिफारिशें (2) से (6) तथा (8) से (11) नोट कर ली हैं और उन्हें यथासम्भव अमल में लाने के लिये कदम उठाये जायेंगे। ट्रान्सफार्मरों के खरीदारों का ध्यान सिफारिश (11) की ओर दिलाया जाता है। सरकार ने सिफारिश (7) भी नोट कर ली है।

4. राज्य सरकारों का ध्यान सिफारिश (12) से (14) की ओर दिलाया जाता है। प्रमुख ट्रान्सफार्मर उपयोक्ताओं और बुशिंग निर्माताओं का ध्यान सिफारिश (13) की ओर तथा ट्रान्सफार्मर और उनके हिस्से निर्माताओं का ध्यान सिफारिश (14) की ओर दिलाया जाता है।

5. ट्रान्सफार्मर निर्माताओं का ध्यान सिफारिश (15) की ओर भी दिलाया जाता है।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय और उस की एक एक प्रति समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों को भेज दी जाय।

(पी० के० जी० मेनन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

